

VINAYAK POLYCON International Ltd.

CIN NO.: L25209RJ2009PLC030620

Regd. Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006, Ph. : 0141-2377007
Email: investor@vinayakpolycon.com, Website: www.vinayakpolycon.com

NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION

Pursuant to General Circular 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 9/2024 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, October 7, 2023 and October 3, 2024 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars and SEBI Circular, the upcoming 16th AGM of the Company will be held on Saturday, 27th September, 2025 at 01.00 p.m. (IST) through VC/OAVM. Hence, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 16th AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2024-2025 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2024-2025 and login details for e-voting.

Registration/updation of e-mail addresses & bank account details:

Physical Holding Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase- II, New Delhi- 110 020 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.vinayakpolycon.com as well as RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id: investor@masserv.com under copy marked to company at investor@vinayakpolycon.com

Demat Holding Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).

E-voting Information:

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.vinayakpolycon.com. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2024-2025 will also be available on Company's website www.vinayakpolycon.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company.

For Vinayak Polycon International Limited

Place: Jaipur Sd/-
Date: 13.08.2025 Shikha Natani (Company Secretary)

UNIVERSAL CONVEYOR BELTINGS LIMITED

Registered Office: Office No 24, 2nd Floor, B 28, Maurya Complex, Laxmi Nagar, Delhi-110092

CIN- U29299DL1973PLC006646

NOTICE FOR 51ST ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

(A) Annual General Meetings:

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, 9th September, 2025 at 12:30 P.M.** to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Company has on 12th August, 2025 completed the dispatch of the Notice of the AGM whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode/Demat mode as on 08th August, 2025 either by email to the email ids available with the Company/Registrar & Share Transfer Agents (RTA/Depository Participant(s)), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. The Annual Report and other communications sent physically as well as electronically to the members whose Email ID available with RTA and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11:00 a.m. and 5:00 p.m. up to the date of the AGM.

(B) E-voting:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is providing remote e-voting facility for its shareholders to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM for all the resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency.

All the members are informed that:

1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is **Tuesday, 02nd September, 2025**.
2. Date of completion of sending Notice of AGM-12th August, 2025
3. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, i.e. 02 September, 2025 may obtain the ballot and procure by sending an e-mail to ballot@bolmail.com and

MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: Room No. 118, First Floor, MGM Commercial Complex, 4634/1, Plot No. 19, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 | Tel: 011-42420015
E-mail: info@magnumventures.in | Website: www.magnumventures.in

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Amount in lacs)

SI No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30/06/2025 (Un-Audited)	31/03/2025 (Audited)	30/06/2024 (Un-Audited)	31/03/2025 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	11603.78	11941.30	9063.35	39725.55
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-1591.66	318.48	-738.84	56.66
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1591.66	228.13	-738.84	-11.53
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1815.89	539.43	-1303.59	949.58
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1815.89	529.71	-1303.59	939.86
6.	Paid up Equity Share Capital	6641.13	6641.13	6264.88	6641.13
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	NA	12031.91	NA	12031.91
8.	Securities Premium Account	10867.77	10867.77	10303.4	10867.77
9.	Net worth	18864.39	20936.61	16337.79	20936.61
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	16629	17088	15000	17088
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	525	525	901.25	525
12.	Debt Equity Ratio	0.27	0.25	0.22	0.25
13.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	Basic:	(2.73)	0.82	(2.18)	1.45
	Diluted:	(2.73)	0.82	(2.18)	1.45
14.	Capital Redemption Reserve	0	0	0	0
15.	Debenture Redemption Reserve	0	0	0	0
16.	Debt Service Coverage Ratio	0.21	1	0.29	5.02
17.	Interest Service Coverage Ratio	-0.95	1.31	-0.04	0.99

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results of 30th June 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as approved by the Board of directors in its meeting dated 13th August 2025. The full format of the said financial results are available on the Company's website (<https://www.magnumventures.in/investors-relations/financial-results.html>) and the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and can also be accessed by scanning the following Quick Response Code.



By the order of the Board
For Magnum Ventures Limited

Sd/-
Abhay Jain
Managing Director

Date: 13.08.2025
Place: Ghaziabad

PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.

Registered Office : House No.4, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R. G. Baruah Road, Guwahati - 781 024.
CIN No.: L17124AS1987PLC002758 Email: secretarial@bosimi.com, Website : www.pragbosimi.com

Statement of Unaudited Consolidated Financial Result for the period ended 30-06-2025

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	Quarter ended on			Audited 12 Months ended from April 2024-Mar. 2025
		30-Jun-2025 (Unaudited)	31-Mar-2025 (Audited)	30-Jun-2024 (Unaudited)	
1.	Total Income from Operations	31.85	0.39	0.18	100.50
2.	Profit/(Loss) before exceptional and tax items	(269.29)	(368.50)	(253.15)	(1,119.00)
3.	Profit/(Loss) before extraordinary item and tax	(269.29)	(368.50)	(253.15)	(1,119.00)
4.	Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(269.29)	(368.50)	(253.15)	(1,119.00)
5.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(269.29)	(368.50)	(253.15)	(1,119.00)
6.	Total other Comprehensive Income for the period	(269.29)	(368.50)	(253.15)	(1,119.00)
7.	Paid-up equity share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	7,729	7,729	7,729	7,729
8.	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year				(9,651.96)
9.	Earning Per Share (before extraordinary items) (of ₹10/- each)				
a)	Basic EPS	(0.35)	(0.48)	(0.33)	(1.45)
b)	Diluted EPS	(0.35)	(0.48)	(0.33)	(1.45)

The above is an extract of the detailed format of Consolidated Unaudited Financial Results ended 30th June 2025 filed with the Stock Exchange/s under Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, 2015. The full format of the unaudited results for the quarter ended 30th June 2025 is available on the Company website "www.pragbosimi.com" and on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.



For PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.

Sd/-
RAKTIM KUMAR DAS
Whole Time Director
DIN NO.: 05115126

Place : Guwahati
Dated : 13.08.2025

नमो ईवेस्ट मेनेजमेंट लिमिटेड
 CIN: L74140DL2014PLC263441
 पर्सनल कार्यालय-१-१, प्रावेंट न-५-६, बैंगंटेंट, बेंग रोड कालागड़ी,
 दिल्ली, दिल्ली, नया दिल्ली-११००१९, भारत
 वेबसाइट: www.namowaste.com ईमेल: cs@namowaste.com
 फोन नंबर: ९१ ९८७३४०६९६७

योडिंगो त्रिनियोगिता (‘वीसीटी’), अन्य अडिंगो-विजुअल मान्यताएँ (‘वीवीएसीएम’), के मान्यतम् से
 अर्थात् ज्ञान वाली १२वीं वार्षिक अम बैठक को सुनाना।

एतद्वारा यह सुनिधि किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (‘अधिनियम’), के साथ-साथ कंपोटेंट मानलों के मान्यत्व (एमसी) और भारतीय प्रतिपूर्ति और विनियम बोर्ड (‘सेकेन्सी’), द्वारा जारी संबंधित परिपेक्षों के अनुसार में कंपनी की 12वीं वार्षिक अम बैठक (एसीएम) मान्यतावाल, ०९ सितंबर २०२५ को शाम ०४:०० बजे (भा. मा. स.) योडिंगो कार्यालयों (‘वीसीटी’)/अन्य अडिंगो-विजुअल मान्यताओं (‘वीवीएसीएम’), के मान्यतम् से सदस्यों की भी भावी उपस्थिति के बिना अधिनियम की जागीरीयता तथा इस संबंधमें, १२वीं एजीएम के लिए नियांरित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

विनियम या २०२५-में दिए गए कंपनी की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियोगी एजीएम की सुनाना के साथ कंपनी की वेबसाइट <https://www.namowaste.com/annual-reports> और एप्पलेट की वेबसाइट <https://www.evoting.nseindia.com/> पर उल्लिख होगी। इनके अतिरिक्त, एजीएम की सुनाना के साथ वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५ उस स्क्रीन एससीवी, यानी www.nseindia.com की वेबसाइट पर भी उल्लिख होगी जहां कंपनी की प्रतिपूर्तियां सुचीबन्धी हों। सदस्यों के बीच योडिंगो-वीवीएसीएम सुविधा के मान्यतम् से १२वीं एजीएम में सदस्यीय हो जाएगी और योडिंगो-वीवीएसीएम सुविधा के दौरान रिपोर्ट इं-वीवीएम में भाग लेने वाले योडिंगो-वार्षिक ज्ञानों के मान्यतम् से मतदान करने का तराका एजीएम की सुनाना में दिया जाएगा। अधिनियम की धारा १०३ का तहत कोम की जगह इस द्वारे की केवल योडिंगो-वीवीएसीएम सुविधा के मान्यतम् से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की ही मिल जायगी।

एजीएम की सुनाना के साथ वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५ के बीच उन्हीं सदस्यों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएंगी कंपेन जो एप्सोलूट और सेसी के परिपेक्षों के अनुसार कंपनी-प्रिस्ट्रिटर और शेयर ट्रांसफर एजेंट (‘आरटीए’), द्विपालिती के यात्रा पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों के पास पंजीकृत रूप से शेयर हैं या जिनमें से कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे एप्पलेटीवील इं-वीवीएम स्ट्रिटम और चर्चुअल गोर्गोन में शास्त्रान्वय होने के शरीक के तहत एजीएम की सुनाना में दिये गए निरिशों का पालन करके मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों के पास पंजीकृत रूप से शेयर हैं और जिनमें से कोई तस्वीर अपनी कंपनी के साथ पंजीकृत है ताकि उन्हें एजीएम के लिए जल्द से जल्द अपडेट-कंपनी के साथ पंजीकृत/अपडेट करवाए।

जिन सदस्यों के पास इमेल रूप में शेयर हैं, उनमें अनुदान है कि वे यह सुनिधि करें कि उनका विप्र इमेल पाइलेट्वरिंग की बैंक मीटिंग और अन्य कैवलाई सुविधा हमेशा उनके सदस्यों के लिए जिस्टर्ड में दर्ज है, केवल जहां १२वीं एजीएम में फैले जाने वाले व्यावसायिक मर्दों पर, या यो रिपोर्ट इं-वीवीएम के मान्यतम् से या एजीएम के द्वारा इं-वीवीएम प्राप्ती के मान्यतम् से, मतदान करने का कारबाह होगा।

बोर्ड के अदेशानुसार नमो ईवेस्ट मेनेजमेंट सिनेमेंट हस्ता-/-
 (कुमुद शिंगल)

कंपनी सहित और अनुपालन अधिकारी एरीएस-२१८१३

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
CIN NO: L25209RJ2009PLC030620
एंजीकूट कार्यालय : 312, नवबीजन कॉम्प्लेक्स, 29, स्टेटन रोड, यात्रपुर-300206 (राज.) इंडिया
फोन : 0141-2377007 ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाइट : www.vinayakpolycon.com

सदस्यों को ई-मेल नवीनीकरण और अन्य जानकारी के लिए सूचना

कांगपोरे टामालों के मंगलाल (‘एमसीए’) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र 14/2020, 17/2020, 20/2020, 20/2021, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 और 9/2024 वितरित हैं।
वितरित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 2018 वितरित 2021, 14 वितरित 2021, 05 मई 2022 और 28 वितरित 2022, 25 वितरित 2023 और 19 वितरित 2024 के अनुसार (सार्विक कार्य से [एमसीए परिपत्र के रूप में संस्कृतित]) और परिपत्र संस्कृत संस्कृत/चाचों/प्रातांत्री प्रारूपित और वितरित वर्षों द्वारा जारी किए गए ग्रन्थालय 12 मई 2020, 15 जून्यो 2021, 13 मई 2022 तथा 15 जून्यो 2023, अटकड़ा 2023 और 3 अटकड़ा 2024 के SEBI/HO/CFD/CMB2/CIR/2021/11 एवं SEBI/HODHDS/CIR/2022/0063 वर्ष SEBI/HO/CFD/CMB2/CIR/2023/4 एवं SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 (सार्वानुकूल रूप से संस्कृत पारंपराग के रूप में संस्कृती), जो वितरित कार्यक्रम (‘वितरित’) और अंतिम वितरित कार्यक्रम (‘आंतरिक’) के बारे में विवरित करता है और अंतरिक कार्यक्रम (‘वितरित’) को प्रभावी वितरित के बिना आंतरिक करने को अनुमति देते हैं, बैंक तंत्र सदस्यों की उमस्थिति अनिवार्य है। कंपनी अंतिमितम्, 2013 (‘अंतिमितम्’), संस्कृत सूचना तात्पर्य और अंतरिक्तकार्यालय (‘वितरित’), 2015 (‘संस्कृतज्ञानपाद वितरित’) और एसीसी तंत्र तथा संस्कृत परिपत्र के प्रारब्धालयों के अनुपातम् में, कंपनी की आंतरिक 16वीं कार्यक्रम अंतरिक (‘एसीसी’), वितरित 27 मिस्रिया, 2025 को दोपहर 0.00 बजे (‘एसीसी’), वितरित 2023 और एसीसी के माध्यम से आंतरिक को जारी। इसलिये, संस्कृत क्षेत्र वितरित संस्कृत/आंतरिक सम्बन्धित कार्यक्रम से आंतरिक को जारी। इसलिये, संस्कृत क्षेत्र वितरित संस्कृत/आंतरिक सम्बन्धित के माध्यम से एसीसी से आंतरिक हो सकते हैं और भारा ले सकते हैं।

पूर्वोत्तरी परिपत्रों तथा संस्कृत परिपत्रों के अनुसार वितरित 2024-25 के लिए वितरित के 15 वीं एप्रैल की संस्कृत कंपनी तथा सदस्यों का इन्द्रियानुकूल माध्यम से भेजी जाएगी। कंपनी ई-मेल आईडी पर लगाए गए कॉम्पनी नाम/वितरित, वितरितर्वा, शेष त्रामाक प्रज्ञन (‘आरटीटी’) और वितरितर्वा प्रारंभितिर्वा (‘टीपीटी’) का संक्षण परिवर्तित करेगी। कंपनी आगे संस्कृत सदस्यों को एजीएक के द्वारा ई-वार्टिंग को संक्षिप्त रूप से वितरित कर दी है।

यदि आंतरिक कार्यक्रम के माध्यम पर फैले हों तो एप्रैल आंतरिक वितरित में वितरित हो तो एप्रैल की सुधारों को माध्यम पर वितरित 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वार्टिंग के लिए लागिया वितरित आपके परिवर्तन हो सकते पर भेजे जायें। यदि आपने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीटी अंतरिक एप्रैल परिपत्र के माध्यम परिवर्तित हो तो, कृपया वितरित वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वार्टिंग के लिए लागिया वितरित प्राप्त करने के लिए आगे ई-मेल आईडी को दर्जन करने के निर्देशों का प्रयोग करें।

ई-मेल प्राप्त तथा ई-वार्टिंग वितरित का प्रत्यक्षरूप/वर्तमानकृत्य

<p>भौतिक रूप से प्रतिरूप बनाने करते हुए</p> <p>कंपनी को आरटीए पारी प्रैस्यूल संवर्सेस लिमिटेड, टी-34, दिव्यत तल, अखेला अंगूष्ठीकरण क्षेत्र, फैज-II, नई दिल्ली-110020 का विविध प्रारंभ भारा पार्स संस्था IRS-1 भंडे, जिसे कंपनी को वेबसाइट www.vinayakpolycon.com और आरटीए को वेबसाइट www.masser.com से डाउनलोड ट्रैक को अंतर्नाल डाउनलोड दिया जाता है।</p> <p>आप पारी संस्था IRS-1 को विविध प्रारंभ के साथ आरटीए को इंगेल आईटी investor@masser.com पर भी भेज सकते हैं। विविध क्रीट कंपनी को investor@vinayakpolycon.com पर मार्की की गहरी है।</p>	<p>सीमित रूप से प्रतिरूप बनाने करते हुए</p> <p>कृपया अपने संवित डिप्यांजिटी पार्टिसिपेंट (डोपी) के साथ अपनी इमेल आईटी और माइक्रो नंबर अपडेट करें।</p>	<p>इंटर्वायूस/स्कूल</p> <p>कंपनी अपने शेयरधारकों को एसएमडीएल द्वारा व्यवसित इलेक्ट्रॉनिक वार्टिंग सेवाओं के माध्यम से वित्ती इंटर्वायू योग्यता प्रदान करती है। एसएमडीएल माला लेने वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वार्टिंग सुनिश्चित अपनाया कराती जाएगी। इसके बारे में विवरण एसएमडीएल की मूलता में प्रदान किया जाएगा और कंपनी को वेबसाइट www.vinayakpolycon.com पर भी अपलोड होगा।</p> <p>एसएमडीएल की मूलता और विवरण वर्ष 2014-2025 का वार्षिक रिपोर्ट कंपनी को वेबसाइट www.vinayakpolycon.com और वीडीओ लिमिटेड को लोगोमाड www.bseindia.com पर भी अपलोड होगा। वीडीओ/ आवृत्तिकों को माध्यम से बैक में जागे लाने वाले संस्थानों को कंपनी अधिविधियम 2013 की धारा 103 के हताह कारबंग के अनुदर्श से गिना जायेगा।</p> <p>किसी भी प्रकृत के माध्यम में, सदर्द्य कंपनी को विचित्र प्रति के तहत क्षम उल्लंघन खत पते और डू-मेल आईटी एवं आरटीए से संपर्क कर सकते हैं या कंपनी को लिख सकते हैं।</p>
<p>स्थान - जयपुर</p> <p>दिनांक: 13.08.2025</p>	<p>वाराते - विवायक, पार्टीलीकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड</p> <p>हस्ताक्षर:</p>	<p>शिशा नाटाराणी (कंपनी की सचिव)</p>

infoedge

इन्फो एज (हिंडिया) लिमिटेड

दीर्घाइएल : L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालय : वीएफ-12ए, 94, गेहूदत लिंकिंग, लैलूक लोड्स, लैंड दिल्ली-19
 विलिंगटन कार्यालय : बी- 8, लेकटर- 132, बोएटा- 201304 (उत्तर प्रदेश) | हूमारा : +91-120-3082000; ईमेल : +91-120-3082095
 वेबसाइट : www.infoedge.in | ईमेल : investors@naukri.com

PFL INFOTECH LIMITED
Corporate Identification Number: L722007G1993PLC007005
Registered Office: House Number 1-10-122-125B/B, Flat No.102, Block B2, Radha Krishna Towers, Mayuri Marg, Begumpet, Hyderabad, Secunderabad - 500016, Telangana, India.
Contact Number: +91-9666699890 / +91-40-64555701 | Email Address: pflinfotech@gmail.com | Website: www.pflinfotech.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 19,44,306 OFFER SHARES REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING CAPITAL OF PFL INFOTECH LIMITED, THE TARGET COMPANY, FROM ITS PUBLIC SHAREHOLDERS AT AN OFFER PRICE OF ₹2.00/-, PAYABLE IN CASH, BY MR. PANKAJ CHAND (ACQUIRER), PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED.

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer ('Manager'), on behalf of the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18(1)(a) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('Post-Offer Public Announcement').

This Post-Offer Public Announcement should be read in conjunction of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated Monday December 02, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Wednesday, December 04, 2024 in connection with this Offer published on behalf of the Acquirer on Thursday, December 05, 2024, in Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Mana Telangana (Telugu Daily) (Hyderabad Edition) ('Newspapers' ('Detailed Public Statement')), (c) Draft Letter of Offer dated Wednesday, December 11, 2024, filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer with along with Form of Acceptance Cum-Acknowledgement (for holding Equity Shares in physical form), and Form SH-4 Securities Transfer Form dated Tuesday, July 08, 2022 ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Tuesday, July 15, 2022 and published in the Newspapers on Wednesday, July 16, 2025 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company'), (f) Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement dated Wednesday, July 16, 2025, which was published in the Newspapers on Thursday, July 25, 2025 ('Pre-Offer Public Announcement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement'), (g) The Public Announcement dated Wednesday, July 16, 2025 ('Detailed Public Statement', Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement, and this Post-Offer Public Announcement are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer.

The capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

1. Name of the Target Company	Mr PFL Inttech Limited, a Public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, bearing corporate identity number L72200TG1993PLC007005 bearing Permanent Account Number 10-A-122-125/9-21 'AACCP7177N', with its registered office located at House Number 1-10-A-122-125/9-21, Flat No.102, Block B2, Radha Krishna Towers, Mayuri Marg, Begumpet, Hyderabad Secunderabad, Telangana - 500016, India.
2. Name of the Acquirer and PAGs	Mr. Parma Nand Chand, son of Mr. Rambihari Chand, aged about 57 years, Indian Resident, bearing Permanent Account Number 'AGCPGC8534E' allotted under the Income Tax Act, 1961, residential D-3003, Loyds Estate, Sangam Nagar, Near Vidyalankar College, Wadala East, Antop Hill, Mumbai - 400037, Maharashtra, India. The Acquirer can be contacted via telephone at +91-9821037064' or via Email Address as provided in the application.

ক.	স.
১	১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	৫
৬	৬
৭	৭
৮	৮